



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 20 नवम्बर, 2020
कार्तिक 29, 1942 शक सम्वत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

संख्या 4/796-2020-4-95(फिरोजाबाद)-2014
लखनऊ, 20 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-324

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-2334/तैतीस-1-94-149/94, दिनांक 9 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या-1207/38-3-2000-34बी/2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, किंजल सिंह, निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ, पंचायती राज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1992/33-3-2014-03 रा0नि0आ0/2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या-2491/33-3-2014-03 रा0नि0आ0/2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद फिरोजाबाद की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या-4/73/2015-4/95(फिरोजाबाद)/2014, दिनांक 13 जनवरी, 2015 में विकास खण्ड शिकोहाबाद एवं हाथवन्त की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्द्वारा स्थापित करती हूँ।

सारिणी

जनपद-फिरोजाबाद

पूर्व स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र०सं०	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत सम्मिलित राजस्व ग्राम	क्र०सं०	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	6	7	8
190	शिकोहावाद	मकखनपुर	1-मकखनपुर		शिकोहावाद	ग्राम पंचायत मकखनपुर पूर्ण रूप से नगर विकास अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या: 2033/नौ-1-2019-131सा/2013 दिनांक: 23 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत मकखनपुर में समाहित	
191	शिकोहावाद	जिजौली	1-जिजौली		शिकोहावाद	ग्राम पंचायत जिजौली पूर्ण रूप से नगर विकास अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या: 2033/नौ-1-2019-131सा/2013 दिनांक: 23 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत मकखनपुर में समाहित	
192	शिकोहावाद	मुहम्मदपुर नवादा	1-मुहम्मदपुर नवादा		शिकोहावाद	ग्राम पंचायत मुहम्मदपुर नवादा पूर्ण रूप से नगर विकास अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या: 2033/नौ-1-2019-131सा/2013 दिनांक: 23 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत मकखनपुर में समाहित	
193	शिकोहावाद	नावली	1-नावली	1	शिकोहावाद	नावली	1-नावली
194	शिकोहावाद	दरिगापुर मोहिनीपुर	1-दरिगापुर मोहिनीपुर	2	शिकोहावाद	दरिगापुर मोहिनीपुर	1-दरिगापुर मोहिनीपुर
195	शिकोहावाद	मोहिनीपुर	1-मोहिनीपुर	3	शिकोहावाद	मोहिनीपुर	1-मोहिनीपुर
196	शिकोहावाद	इन्दुमई	1-इन्दुमई	4	शिकोहावाद	इन्दुमई	1-इन्दुमई
			2-अधमपुर				2-अधमपुर
197	शिकोहावाद	अंगदपुर	1-अंगदपुर	5	शिकोहावाद	अंगदपुर	1-अंगदपुर
198	शिकोहावाद	गोविन्दपुर	1-गोविन्दपुर	6	शिकोहावाद	गोविन्दपुर	1-गोविन्दपुर
			2-रामनगर राजपुर बलाई				2-रामनगर राजपुर बलाई
199	शिकोहावाद	राजपुर बलाई	1-राजपुर बलाई	7	शिकोहावाद	राजपुर बलाई	1-राजपुर बलाई
			2-रनुआ खेडा				2-रनुआ खेडा
200	शिकोहावाद	रूपसपुर	1-रूपसपुर	8	शिकोहावाद	रूपसपुर	1-रूपसपुर
201	शिकोहावाद	साडूपुर	1-साडूपुर	9	शिकोहावाद	साडूपुर	1-साडूपुर
			2-खुशालपुर				2-खुशालपुर
			3-कल्यानपुर अंगदपुर				3-कल्यानपुर अंगदपुर

1	2	3	4	5	6	7	8
202	शिकोहावाद	जेवडा	1-जेवडा	10	शिकोहावाद	जेवडा	1-जेवडा
203	शिकोहावाद	किशनपुर अरमराजटट	1-किशनपुर अरमराजटट	11	शिकोहावाद	किशनपुर अरमराजटट	1-किशनपुर अरमराजटट
			2-किरथरा मुहम्मदपुर				2-किरथरा मुहम्मदपुर
204	शिकोहावाद	चमरौली	1-चमरौली	12	शिकोहावाद	चमरौली	1-चमरौली
			2-निहालपुर				2-निहालपुर
205	शिकोहावाद	न0बाजदार	1-न0बाजदार	13	शिकोहावाद	न0बाजदार	1-न0बाजदार
			2-बहोरनपुर				2-बहोरनपुर
206	शिकोहावाद	गलामई	1-गलामई	14	शिकोहावाद	गलामई	1-गलामई
207	शिकोहावाद	हरगनपुर	1-हरगनपुर	15	शिकोहावाद	हरगनपुर	1-हरगनपुर
208	शिकोहावाद	जफरावाद	1-जफरावाद	16	शिकोहावाद	जफरावाद	1-जफरावाद
209	शिकोहावाद	घाघऊ	1-घाघऊ	17	शिकोहावाद	घाघऊ	1-घाघऊ
			2-सिकन्दरपुर				2-सिकन्दरपुर
210	शिकोहावाद	बदनपुर कर्खा	1-बदनपुर कर्खा	18	शिकोहावाद	बदनपुर कर्खा	1-बदनपुर कर्खा
211	शिकोहावाद	सलेमपुर वरियामऊ	1-सलेमपुर वरियामऊ	19	शिकोहावाद	सलेमपुर वरियामऊ	1-सलेमपुर वरियामऊ
212	शिकोहावाद	धौरऊ हिम्मतपुर	1-धौरऊ हिम्मतपुर	20	शिकोहावाद	धौरऊ हिम्मतपुर	1-धौरऊ हिम्मतपुर
213	शिकोहावाद	छरीछप्पर	1-छरीछप्पर	21	शिकोहावाद	छरीछप्पर	1-छरीछप्पर
214	शिकोहावाद	अब्बासपुर	1-अब्बासपुर	22	शिकोहावाद	अब्बासपुर	1-अब्बासपुर
215	शिकोहावाद	हरिहा	1-हरिहा	23	शिकोहावाद	हरिहा	1-हरिहा
			2-रहल				2-रहल
216	शिकोहावाद	मुवारिकपुर	1-मुवारिकपुर	24	शिकोहावाद	मुवारिकपुर	1-मुवारिकपुर
217	शिकोहावाद	रजोपुरा	1-रजोपुरा	25	शिकोहावाद	रजोपुरा	1-रजोपुरा
			2-समुहा				2-समुहा
218	शिकोहावाद	हैवतपुर कर्खा	1-हैवतपुर कर्खा	26	शिकोहावाद	हैवतपुर कर्खा	1-हैवतपुर कर्खा
219	शिकोहावाद	करनपुर	1-करनपुर	27	शिकोहावाद	करनपुर	1-करनपुर
220	शिकोहावाद	नसीरपुर	1-नसीरपुर	28	शिकोहावाद	नसीरपुर	1-नसीरपुर
221	शिकोहावाद	अतापुर	1-अतापुर	29	शिकोहावाद	अतापुर	1-अतापुर
222	शिकोहावाद	ततारपुर	1-ततारपुर	30	शिकोहावाद	ततारपुर	1-ततारपुर
			2-असरावली				2-असरावली
223	शिकोहावाद	रपडी	1-रपडी	31	शिकोहावाद	रपडी	1-रपडी
			2-शहजादपुर दिदौली				2-शहजादपुर दिदौली
			3-शेखूपुर गढी				3-शेखूपुर गढी
224	शिकोहावाद	गढीदानसहाय	1-गढीदानसहाय	32	शिकोहावाद	गढीदानसहाय	1-गढीदानसहाय

1	2	3	4	5	6	7	8
225	शिकोहावाद	ब्रह्मबाद लाछपुर	1-लाछपुर	33	शिकोहावाद	ब्रह्मबाद लाछपुर	1-ब्रह्मबाद लाछपुर
			2-जमालीपुर				2-जमालीपुर
226	शिकोहावाद	नगला चन्दा	1-नगला चन्दा	34	शिकोहावाद	नगला चन्दा	1-नगला चन्दा
227	शिकोहावाद	सुजावलपुर	1-सुजावलपुर	35	शिकोहावाद	सुजावलपुर	1-सुजावलपुर
228	शिकोहावाद	रसूलपुर	1-रसूलपुर	36	शिकोहावाद	रसूलपुर	1-रसूलपुर
229	शिकोहावाद	धनपुरा	1-धनपुरा	37	शिकोहावाद	धनपुरा	1-धनपुरा
230	शिकोहावाद	रुधऊ	1-रुधऊ	38	शिकोहावाद	रुधऊ	1-रुधऊ
			2-सौरख				2-सौरख
231	शिकोहावाद	भडाईपुरा	1-भडाईपुरा	39	शिकोहावाद	भडाईपुरा	1-भडाईपुरा
232	शिकोहावाद	फतेहपुर कर्खा	1-फतेहपुर कर्खा	40	शिकोहावाद	फतेहपुर कर्खा	1-फतेहपुर कर्खा
233	शिकोहावाद	मेवली	1-मेवली	41	शिकोहावाद	मेवली	1-मेवली
			2-कुतवपुर हरगनपुर				2-कुतवपुर हरगनपुर
			3-वरियारमऊ				3-वरियारमऊ
234	शिकोहावाद	डाहिनी	1-डाहिनी	42	शिकोहावाद	डाहिनी	1-डाहिनी
			2-झमझमपुर				2-झमझमपुर
235	शिकोहावाद	उवटी	1-उवटी	43	शिकोहावाद	उवटी	1-उवटी
236	शिकोहावाद	निजामपुर गढूमा	1-निजामपुर गढूमा	44	शिकोहावाद	निजामपुर गढूमा	1-निजामपुर गढूमा
237	शिकोहावाद	किशनपुर मुहम्मदावाद	1-किशनपुर मुहम्मदावाद	45	शिकोहावाद	किशनपुर मुहम्मदावाद	1-किशनपुर मुहम्मदावाद
238	शिकोहावाद	आमरी	1-आमरी	46	शिकोहावाद	आमरी	1-आमरी
239	शिकोहावाद	वाकलपुर	1-वाकलपुर	47	शिकोहावाद	वाकलपुर	1-वाकलपुर
240	शिकोहावाद	मुहम्मदपुर बैरई	1-मुहम्मदपुर बैरई	48	शिकोहावाद	मुहम्मदपुर बैरई	1-मुहम्मदपुर बैरई
			2-चैरई				2-चैरई
241	शिकोहावाद	आरौंज	1-आरौंज	49	शिकोहावाद	आरौंज	1-आरौंज
242	शिकोहावाद	जलालपुर मरघटी	1-जलालपुर मरघटी	50	शिकोहावाद	जलालपुर मरघटी	1-जलालपुर मरघटी
243	शिकोहावाद	गागई	1-गागई	51	शिकोहावाद	गागई	1-गागई
244	शिकोहावाद	छीछामई	1-छीछामई	52	शिकोहावाद	छीछामई	1-छीछामई
			2-जसलई				2-जसलई
245	शिकोहावाद	नीमखेरिया	1-नीमखेरिया	53	शिकोहावाद	नीमखेरिया	1-नीमखेरिया
246	शिकोहावाद	मुहम्मदपुर अहीर	1-मुहम्मदपुर अहीर	54	शिकोहावाद	मुहम्मदपुर अहीर	1-मुहम्मदपुर अहीर
247	शिकोहावाद	जहाँगीरपुर गैलरई	1-जहाँगीरपुर गैलरई	55	शिकोहावाद	जहाँगीरपुर गैलरई	1-जहाँगीरपुर गैलरई

1	2	3	4	5	6	7	8
248	शिकोहावाद	नगला उमर	1-नगला उमर	56	शिकोहावाद	नगला उमर	1-नगला उमर
249	शिकोहावाद	अरमराजटट	1-अरमराजटट	57	शिकोहावाद	अरमराजटट	1-अरमराजटट
250	शिकोहावाद	मुहम्मदपुर लभौआ	1-मुहम्मदपुर लभौआ	58	शिकोहावाद	मुहम्मदपुर लभौआ	1-मुहम्मदपुर लभौआ
			2-लाटूमई				2-लाटूमई
251	शिकोहावाद	मैयामई	1-मैयामई	59	शिकोहावाद	मैयामई	1-मैयामई
252	शिकोहावाद	नगला वलुआ	1-नगला वलुआ	60	शिकोहावाद	नगला वलुआ	1-नगला वलुआ
253	शिकोहावाद	दिखतौली	1-दिखतौली	61	शिकोहावाद	दिखतौली	1-दिखतौली
254	शिकोहावाद	सहजलपुर	1-सहजलपुर	62	शिकोहावाद	सहजलपुर	1-सहजलपुर
255	शिकोहावाद	विदरखा	1-विदरखा	63	शिकोहावाद	विदरखा	1-विदरखा
256	शिकोहावाद	रहचटी	1-रहचटी	64	शिकोहावाद	रहचटी	1-रहचटी
			2-बुढरई				2-बुढरई
257	शिकोहावाद	दखिनारा	1-दखिनारा	65	शिकोहावाद	दखिनारा	1-दखिनारा
			2-तरामई				2-तरामई
258	शिकोहावाद	आसदेवमई नूरपुर	1-आसदेवमई नूरपुर	66	शिकोहावाद	आसदेवमई नूरपुर	1-आसदेवमई नूरपुर
259	शिकोहावाद	दिवाइची	1-दिवाइची	67	शिकोहावाद	दिवाइची	1-दिवाइची
260	शिकोहावाद	इटौली	1-इटौली	68	शिकोहावाद	इटौली	1-इटौली
261	शिकोहावाद	नौशहरा	1-नौशहरा	69	शिकोहावाद	नौशहरा	1-नौशहरा
			2-रीठरा				2-रीठरा
262	शिकोहावाद	असुआ	1-असुआ	70	शिकोहावाद	असुआ	1-असुआ
263	शिकोहावाद	शाहपुर	1-शाहपुर	71	शिकोहावाद	शाहपुर	1-शाहपुर
			2-मुहम्मदपुर सराय जावई				2-मुहम्मदपुर सराय जावई
264	शिकोहावाद	नगला सैदलाल	1-नगला सैदलाल	72	शिकोहावाद	नगला सैदलाल	1-नगला सैदलाल
265	शिकोहावाद	चितावली	1-चितावली	73	शिकोहावाद	चितावली	1-चितावली
266	शिकोहावाद	वासुदेवमई	1-वासुदेवमई	74	शिकोहावाद	वासुदेवमई	1-वासुदेवमई
			2-उरमरा किरार				2-उरमरा किरार
267	शिकोहावाद	वूडाभरथरा	1-वूडाभरथरा	75	शिकोहावाद	वूडाभरथरा	1-वूडाभरथरा
498	हाथवन्त	केसपुरा	1-केसपुरा	76	हाथवन्त	केसपुरा	1-केसपुरा
			2-मीथपुरा				2-मीथपुरा
			3-नगला कांस				3-नगला कांस
			4-अगौधा				4-अगौधा
499	हाथवन्त	रखावली	1-रखावली	77	हाथवन्त	रखावली	1-रखावली
500	हाथवन्त	बरथरा	1-बरथरा	78	हाथवन्त	बरथरा	1-बरथरा
			2-भूङगड्डा				2-भूङगड्डा

1	2	3	4	5	6	7	8
501	हाथवन्त	चिरावली	1-चिरावली	79	हाथवन्त	चिरावली	1-चिरावली
502	हाथवन्त	खेरिया सिकमी गोहना	1-खेरिया सिकमी गोहना	80	हाथवन्त	खेरिया सिकमी गोहना	1-खेरिया सिकमी गोहना
			2-फाजिलपुर जरैला				2-फाजिलपुर जरैला
503	हाथवन्त	इटाहरी	1-इटाहरी	81	हाथवन्त	इटाहरी	1-इटाहरी
			2-खुसकपुरा				2-खुसकपुरा
504	हाथवन्त	फरिहा देहात	1-फरिहा देहात	82	हाथवन्त	फरिहा देहात	1-फरिहा देहात
505	हाथवन्त	बलीपुर तपस्या	1-बलीपुर तपस्या	83	हाथवन्त	बलीपुर तपस्या	1-बलीपुर तपस्या
506	हाथवन्त	रीवा	1-रीवा	84	हाथवन्त	रीवा	1-रीवा
507	हाथवन्त	दारापुर रसैनी	1-दारापुर रसैनी	85	हाथवन्त	दारापुर रसैनी	1-दारापुर रसैनी
			2-फरीदा बहत				2-फरीदा बहत
508	हाथवन्त	अकबरपुर मस्तपुर	1-अकबरपुर मस्तपुर	86	हाथवन्त	अकबरपुर मस्तपुर	1-अकबरपुर मस्तपुर
			2-दरबारपुर				2-दरबारपुर
			3-गढिया खास				3-गढिया खास
509	हाथवन्त	शेखनपुर	1-शेखनपुर	87	हाथवन्त	शेखनपुर	1-शेखनपुर
			2-मछरैया न0 फतेह				2-मछरैया न0 फतेह
			3-सैटई				3-सैटई
510	हाथवन्त	कौरारी सरहद	1-कौरारी सरहद	88	हाथवन्त	कौरारी सरहद	1-कौरारी सरहद
			2-करैजुआ				2-करैजुआ
			3-नगला थना				3-नगला थना
			4-नगला सुखी				4-नगला सुखी
			5-अजायपुर				5-अजायपुर
511	हाथवन्त	ओढमपुर	1-ओढमपुर	89	हाथवन्त	ओढमपुर	1-ओढमपुर
512	हाथवन्त	मस्तपुर अकबरपुर	1-मस्तपुर अकबरपुर	90	हाथवन्त	मस्तपुर अकबरपुर	1-मस्तपुर अकबरपुर
513	हाथवन्त	अहमदपुर मढ़ा	1-अहमदपुर मढ़ा	91	हाथवन्त	अहमदपुर मढ़ा	1-अहमदपुर मढ़ा
514	हाथवन्त	कोंडर	1-कोंडर	92	हाथवन्त	कोंडर	1-कोंडर
515	हाथवन्त	रानीपुर	1-रानीपुर	93	हाथवन्त	रानीपुर	1-रानीपुर
			2-गागनपुर				2-गागनपुर
			3-नगला दास				3-नगला दास
			4-गंगलई				4-गंगलई

1	2	3	4	5	6	7	8
516	हाथवन्त	कमालपुर रखावली	1-कमालपुर रखावली	94	हाथवन्त	कमालपुर रखावली	1-कमालपुर रखावली
517	हाथवन्त	साहुमई	1-साहुमई	95	हाथवन्त	साहुमई	1-साहुमई
518	हाथवन्त	लखऊआ	1-लखऊआ	96	हाथवन्त	लखऊआ	1-लखऊआ
			2-टीकरी				2-टीकरी
519	हाथवन्त	भकार	1-भकार,	97	हाथवन्त	भकार	1-भकार,
			2-जलालपुर				2-जलालपुर
520	हाथवन्त	दपामई	1-दपामई	98	हाथवन्त	दपामई	1-दपामई
521	हाथवन्त	इटौली	1-इटौली	99	हाथवन्त	इटौली	1-इटौली
522	हाथवन्त	कनवारा	1-कनवारा	100	हाथवन्त	कनवारा	1-कनवारा
523	हाथवन्त	सिरमई	1-सिरमई	101	हाथवन्त	सिरमई	1-सिरमई
524	हाथवन्त	कलूपुरा	1-कलूपुरा	102	हाथवन्त	कलूपुरा	1-कलूपुरा
525	हाथवन्त	स्यावरी	1-स्यावरी	103	हाथवन्त	स्यावरी	1-स्यावरी
			2-दरिगपुर				2-दरिगपुर
526	हाथवन्त	दुगना	1-दुगना	104	हाथवन्त	दुगना	1-दुगना
527	हाथवन्त	पथरौआ	1-पथरौआ	105	हाथवन्त	पथरौआ	1-पथरौआ
528	हाथवन्त	गढौरा	1-गढौरा	106	हाथवन्त	गढौरा	1-गढौरा
529	हाथवन्त	साँखिनी	1-साँखिनी	107	हाथवन्त	साँखिनी	1-साँखिनी
			2-रैपुरा				2-रैपुरा
530	हाथवन्त	खैरगढ़	1-खैरगढ़	108	हाथवन्त	खैरगढ़	1-खैरगढ़
531	हाथवन्त	नगला हिम्मत	1-नगला हिम्मत	109	हाथवन्त	नगला हिम्मत	1-नगला हिम्मत
532	हाथवन्त	जरौली	1-जरौली	110	हाथवन्त	जरौली	1-जरौली
533	हाथवन्त	नया बॉस	1-नया बॉस	111	हाथवन्त	नया बॉस	1-नया बॉस
534	हाथवन्त	नगला खैयातान	1-नगला खैयातान	112	हाथवन्त	नगला खैयातान	1-नगला खैयातान
535	हाथवन्त	लालई	1-लालई	113	हाथवन्त	लालई	1-लालई
536	हाथवन्त	साँथी	1-साँथी	114	हाथवन्त	साँथी	1-साँथी
			2-गढिया सिकमी खैरगढ़				2-गढिया सिकमी खैरगढ़
537	हाथवन्त	बनीपुरा	1-बनीपुरा	115	हाथवन्त	बनीपुरा	1-बनीपुरा
538	हाथवन्त	बवाइन	1-बवाइन	116	हाथवन्त	बवाइन	1-बवाइन
539	हाथवन्त	बिल्टीगढ़ देवजीत	1-बिल्टीगढ़ देवजीत		हाथवन्त	ग्राम पंचायत बिल्टीगढ़ देवजीत पूर्ण रूप से नगर विकास अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या: 2033/नौ-1-2019-131सा/2013 दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत मकखनपुर में समाहित	

1	2	3	4	5	6	7	8
540	हाथवन्त	बिल्टीगढ रघोल	1-बिल्टीगढ रघोल		हाथवन्त	ग्राम पंचायत बिल्टीगढ रघोल पूर्ण रूप से नगर विकास अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या: 2033/नौ-1-2019-131सा/2013 दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत मकखनपुर में समाहित	
541	हाथवन्त	संदलपुर	1-संदलपुर	117	हाथवन्त	संदलपुर	1-संदलपुर
			2-नगला हरिया				2-नगला हरिया
542	हाथवन्त	घुनपई	1-घुनपई	118	हाथवन्त	घुनपई	1-घुनपई
543	हाथवन्त	जखारा	1-जखारा	119	हाथवन्त	जखारा	1-जखारा
544	हाथवन्त	खरगपुर	1-खरगपुर	120	हाथवन्त	खरगपुर	1-खरगपुर
545	हाथवन्त	भामई	1-भामई	121	हाथवन्त	भामई	1-भामई
546	हाथवन्त	न0 कॉस मजरा भामई	1-न0 कॉस मजरा भामई	122	हाथवन्त	न0 कॉस मजरा भामई	1-न0 कॉस मजरा भामई
			2-बझेराखुर्द				2-बझेराखुर्द
547	हाथवन्त	इन्दरई	1-इन्दरई	123	हाथवन्त	इन्दरई	1-इन्दरई
548	हाथवन्त	बैरनी सनौरा	1-बैरनी सनौरा	124	हाथवन्त	बैरनी सनौरा	1-बैरनी सनौरा
			2-रदौआ				2-रदौआ
549	हाथवन्त	बिजौली	1-बिजौली	125	हाथवन्त	बिजौली	1-बिजौली
550	हाथवन्त	कुढी	1-कुढी	126	हाथवन्त	कुढी	1-कुढी
			2-खेरिया शिकमी फीरीदा				2-खेरिया शिकमी फीरीदा
551	हाथवन्त	बलवीरपुर कुढी	1-बलवीरपुर कुढी	127	हाथवन्त	बलवीरपुर कुढी	1-बलवीरपुर कुढी
552	हाथवन्त	पृथ्वीपुर	1-पृथ्वीपुर	128	हाथवन्त	पृथ्वीपुर	1-पृथ्वीपुर
553	हाथवन्त	फरीदा बरौली	1-फरीदा बरौली	129	हाथवन्त	फरीदा बरौली	1-फरीदा बरौली
			2-कैसोपुर				2-कैसोपुर
			3-नगला सकटू				3-नगला सकटू
554	हाथवन्त	बरौली	1-बरौली	130	हाथवन्त	बरौली	1-बरौली
555	हाथवन्त	शेखूपुर हाथवन्त	1-शेखूपुर हाथवन्त	131	हाथवन्त	शेखूपुर हाथवन्त	1-शेखूपुर हाथवन्त
			2-पोपगढ				2-पोपगढ
556	हाथवन्त	नगला किरार	1-नगला किरार	132	हाथवन्त	नगला किरार	1-नगला किरार
557	हाथवन्त	निकाऊ	1-निकाऊ	133	हाथवन्त	निकाऊ	1-निकाऊ
558	हाथवन्त	प्रतापपुर	1-प्रतापपुर	134	हाथवन्त	प्रतापपुर	1-प्रतापपुर
			2-गढी भगवन्त				2-गढी भगवन्त
559	हाथवन्त	अकबरपुर गीतम सिंह	1-अकबरपुर गीतम सिंह	135	हाथवन्त	अकबरपुर गीतम सिंह	1-अकबरपुर गीतम सिंह

1	2	3	4	5	6	7	8
560	हाथवन्त	भीकनपुर साँखिनी	1-भीकनपुर साँखिनी	136	हाथवन्त	भीकनपुर साँखिनी	1-भीकनपुर साँखिनी
			2-नगला किरु				2-नगला किरु
561	हाथवन्त	रहना	1-रहना	137	हाथवन्त	रहना	1-रहना
562	हाथवन्त	नन्दपुर	1-नन्दपुर	138	हाथवन्त	नन्दपुर	1-नन्दपुर
			2-नगला कैसों				2-नगला कैसों
563	हाथवन्त	शेखपुरा	1-शेखपुरा	139	हाथवन्त	शेखपुरा	1-शेखपुरा
564	हाथवन्त	कटैना हर्षा	1-कटैना हर्षा	140	हाथवन्त	कटैना हर्षा	1-कटैना हर्षा
			2-हुसैनपुर गढिया				2-हुसैनपुर गढिया
565	हाथवन्त	नगला जाट	1-नगला जाट	141	हाथवन्त	नगला जाट	1-नगला जाट
			2-बदनपुर				2-बदनपुर
			3-कुसुआमई				3-कुसुआमई
566	हाथवन्त	थानुमई	1-थानुमई	142	हाथवन्त	थानुमई	1-थानुमई
567	हाथवन्त	शोभनपुर	1-शोभनपुर	143	हाथवन्त	शोभनपुर	1-शोभनपुर
568	हाथवन्त	हुसैनपुर जगे	1-हुसैनपुर जगे	144	हाथवन्त	हुसैनपुर जगे	1-हुसैनपुर जगे
			2-बछलई				2-बछलई
			3-पढरिया				3-पढरिया
569	हाथवन्त	दिनौली गोरवा	1-दिनौली गोरवा	145	हाथवन्त	दिनौली गोरवा	1-दिनौली गोरवा
570	हाथवन्त	नायकपुर	1-नायकपुर	146	हाथवन्त	नायकपुर	1-नायकपुर
			2-फतेहपुर कटैना				2-फतेहपुर कटैना

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4/73/2015-4/95(फिरोजाबाद)/2014, दिनांक 13 जनवरी, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,
किंजल सिंह,
निदेशक,
पंचायती राज, उ० प्र०।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 406 राजपत्र-2020-(917) 599 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 8 सा० पंचायतीराज-2020-(918) 132 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)।